



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

20  
श/१९

सं० 376]  
No. 376]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 1984/श्रावण 15, 1906  
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 1984/SRAVANA 15, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

श्रम और पुर्नवास मंत्रालय  
(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 1984

का. आ 567(अ) :—केन्द्रीय सरकार ने, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 27 की अपेक्षानुसार उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग 1 में रेल, माल रोड, डाक और पत्तनों पर लड़ाई और उतराई और रेल की राख गर्त की सफाई के संबंध में कतिपय रोजगार जोड़े हैं।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल, मालरोड, डाक और पत्तनों पर लड़ाई और उतराई और रेल के राख गर्त की सफाई के संबंध में रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें नियत करने की बाबत जांच करने और केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए एक

समिति नियुक्त करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,  
अर्थात् :—

1. श्री सी. टी. विघे, अध्यक्ष  
109, "शलाका" महर्षि कर्वे रोड  
को-आपरेज के सामने बंबई-400021
2. श्री राखाल दास गुप्ता, कर्मचारियों के प्रति-  
ज्येष्ठ लिपिक, मंडल विद्युत इंजीनियर निधि  
का कार्यालय, बनगाईगांव कर्मशाला,  
डाकघर बनगाईगांव, असम।
3. श्री च. शशिभूषण राव, कर्मचारियों के प्रति-  
संयुक्त महासचिव, एन. एफ. आई. निधि  
आर. मार्फत-साउथ ईस्टर्न रेलवेमेन्स  
कॉमिसे, ब्लाक 112/6, यूनिट 2,  
मॉडर्न रीच, कलकत्ता-43

4. श्री आर. सी. शर्मा, नियोजकों के प्रतिनिधि  
संयुक्त निदेशक, वाणिज्यिक याता-  
यात (जी) 2, रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

5. श्री जे. एस. आजाद, नियोजकों के प्रतिनिधि  
संयुक्त निदेशक, यांत्रिक इंजीनियर  
(ईंधन), रेल बोर्ड, नई दिल्ली।

मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के श्री एच. जी. भावे  
जब मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), समिति के सचिव होंगे।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[संख्या-एस-32019/4/83-डब्ल्यू. सी. (एस. डब्ल्यू.)]

जगदीश जोशी, निदेशक

#### MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 1984.

S.O. 567(E)—Whereas the Central Government having added certain employments in loading and unloading in railways, goods sheds, docks and ports, and Ash pit cleaning on Railways to Part I of the Schedule to the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), as required by section 27 of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the said Act, the Central Government hereby appoints a Committee consisting of the following members to hold enquiries and advise the Central Government in respect of fixation of minimum rates of wages for employments in loading and unloading in railways, goods sheds, docks and ports and Ash pit cleaning on Railways namely :—

(1) Shri C.T. Dighe,  
109, Shalaka,  
Maharshi Karve Road,  
Opp. Co-operative,  
Bombay-400021

Chairman

(2) Shri Rakhal Das Gupta,  
Senior Clerk,  
Office of the Divisional  
Electrical Engineer,  
Bongaigaon Workshops,  
P.O. Bongaigaon, Assam.

Employees  
representative

(3) Shri Ch. Seshibhushana Rao,  
Joint General Secretary,  
N.F.I.R.,  
C/o South Eastern Railwaymen's  
Congress, Block 112/6, Unit 2,  
Calcutta-43.

Employees'  
representative

(4) Shri R.C. Sharma,  
Joint Director,  
Traffic Commercial (G)II,  
Railway Board,  
New Delhi.

Employers'  
representative

(5) Shri J.S. Azad,  
Joint Director,  
Mechanical Engineer (Fuel),  
Railway Board  
New Delhi.

Employers'  
representative

Shri H.G. Bhawe, Deputy Chief Labour Commissioner, (Central) in the office of the Chief Labour Commissioner (Central) shall be the Secretary of the Committee.

The headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

[F. No. S-32019/4/83-W.C. (M.W.)]  
JAGDISH JOSHI, Director